

E-Newsletter-Vol - XVIII

LIGHT HOUSE PROJECTS

July 25, 2022, New Delhi

**Shri Durga Shanker Mishra, Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh visits Light House Project Lucknow**



On 5th July 2022, Shri Durga Shanker Mishra, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, and Shri Amrit Abhijat, Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, visited Light House Project (LHP) in Lucknow, Uttar Pradesh to review the progress on site. A detailed review of the housing project was undertaken by Shri Mishra as he was briefed about the progress by construction agency officials and other State Government officers.

In Lucknow, 1,040 affordable houses are under construction. Already in use in Canada and Australia - 'Stay In Place PVC Formwork with Pre-Engineered Steel Structural System' technology - has been adopted here for construction purposes. The plant manufactured rigid poly-vinyl chloride (PVC) based polymer components serve as a permanent stay-in-place finished formwork for concrete walls. The formwork system acts as pre-finished walls requiring no plaster and can be constructed instantly. This System is suitable for residential and commercial buildings of any height from low to high rise.

The advantage of this technology is many as having formwork already as part of system, the construction of building is faster as compared to conventional buildings. It also saves water and formwork system does not have plastering requirement and gives a very aesthetic look.



Here's to all the success, achievements and working
for the betterment of the society!

'Precast Concrete Construction System – 3D Volumetric' has been adopted to construct 1,008 houses. It is the modern method of building by which solid precast concrete structural modules like room, toilet, kitchen, bathroom, stairs are cast monolithically in plant or casting yard in a controlled condition. These modules are then transported, erected, installed and integrated together in the form of complete building unit. About 90% of the building work including finishing is complete in plant/casting yard leading to significant reduction in construction & occupancy time.

Apart from Chennai and Ranchi, allotment of flats at other LHP sites – Indore, Lucknow and Rajkot – has been completed. Meanwhile in Agartala, it is under process.

LIGHT HOUSE PROJECT CHENNAI, TAMIL NADU



GLOBAL
HOUSING
TECHNOLOGY
CHALLENGE INDIA

Inaugurated by Hon'ble Prime Minister on 26th May 2022

LHP Chennai was the first one to be completed among the other projects in record time of 12 months. The 1,152 houses at LHP Chennai are spread across 12 towers and 6 floors with basic infrastructure such as internal water supply, sewer lines, internal electrification, internal roads, lifts, LED Street lights, solar streetlight system, sewerage treatment plant, rainwater harvesting, etc., in place. It also comprises of anganwadi, shops, milk booth and library for the ease of families living inside the premises.



There is no greater feeling than living in your own house and beneficiaries of LHP Chennai are now living this dream. Grih pravesh ceremonies are being held by beneficiaries as they enter their own pucca house with smiles on their faces.



LIGHT HOUSE PROJECT CHENNAI, TAMIL NADU



GLOBAL
HOUSING
TECHNOLOGY
CHALLENGE INDIA



“Literally, dreams do come true. I realised it when I got my own house.”
- Smt Malliga, Flat No - 308



“Thanks to PMAY-U, I am now living in a gated society and not in a slum area, where we earlier used to reside.”
- Smt Valliamma, Flat No - 314



“Feeling so happy to be here. I hope PMAY-U continues so that more and more people are able to get a home like me.”
- Smt Jayaseeli, Flat No - 514



“We suffered a lot in our previous house when it came to paying rent due to our financial situation. Today, we feel blessed to have our own house.”
- Smt R. Manimegalai, Flat No - 210



“Feeling proud to be a house owner.”
- Smt Ambika, Flat No - 301



“With my kid, I am really enjoying the amenities provided inside this gated premises of LHP Chennai. I can drop my daughter to the anganwadi & I also don't have to walk much for a ration shop or a milk booth.”
- Smt Uthiriya Mary, Flat No - 503

Shri RK Gautam, Director, HFA reviews progress of Light House Project Indore

Shri RK Gautam, Director, Housing For All (HFA), Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), monitored implementation of Light House Project in Indore, Madhya Pradesh, on 9th July 2022. Shri Gautam evaluated the progress of the project with respect to construction and its execution at different stages. He also undertook a visit to the sample flat constructed on site. The agency was directed to expedite the construction process so that the work on the project is completed on time for the benefit of its beneficiaries.

'Prefabricated Sandwich Panel System with Pre-Engineered Steel Structural



System', an already established system for building construction in China, Australia, African and Gulf countries, has been selected for construction of 1,024 houses at LHP Indore. It replaces conventional brick and mortar walling construction practices.

This technology brings speed in construction, helps in water conservation. The sandwich panels have light weight material as core, which brings resource efficiency, better thermal insulation, acoustics and energy efficiency.

Visit of Technograhis to Light House Project sites

Training sessions have been organised on regular basis at the LHP sites for Technograhis to teach them about use of the innovative technologies. This exercise promotes knowledge dissemination and cross-learning for the further use of these resources in future construction projects. A total of 35,301 stakeholders have registered themselves as Technograhis, including students, faculty members, Central, State/UT Government, ULB officials and individuals. Out of this, about 14,692 students/faculty members from various educational institutions across the country have enrolled as Technograhis.



64 RACHNA training programmes on Innovative Construction Technologies & Thermal Comfort in Affordable Housing hosted across India



Under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, RACHNA is a unique concept started by MoHUA to organise training programmes and workshops across the country for different range of stakeholders to disseminate knowledge on Innovative Construction Technologies and Thermal Comfort in Affordable Housing. The initiative kicked off in April and the target is to host 75 workshops in different parts of the country. So far, 64 trainings have been conducted across, covering about 3,800 stakeholders.

RACHNA, which stands for Resilient, Affordable, Comfortable Housing with National Action, is a joint effort of MoHUA, Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) and GIZ. The stakeholders are urban practitioners, Government officials, architects, engineers, builders, students and construction workers. The workshops and trainings are conducted by domain experts, wherein they speak about the importance of thermal comfort, building materials, methods of construction for affordable housing and technology.

In the series, 2-day vocational trainings #42nd and #43rd was conducted in Ahmedabad and Agartala simultaneously for construction labourers. The #44th workshop was held for practitioners in Kolkata. Training #45 was on the theme of emerging construction technologies & thermal comfort and was



designed specifically for Government officials in Bengaluru. Training #47 in Guwahati and #49 in Gorakhpur was also held on the same topic targeting Government officials; whereas the #46th workshop was hosted online for practitioners while the #48th was a vocational training for construction labourers held at Affordable Housing in Partnership (AHP) site in Vavdi, Rajkot.

At Bengaluru, RACHNA marked the milestone of completing the 50th workshop, held for practitioners for two days.

The #51st and #52nd trainings were held online for Government officials. The #53rd training was an awareness drive at an architectural college in Bhubaneswar. Subsequently, the #54th, #56th and #58th trainings were on emerging construction technologies for thermal comfort, designed for practitioners. The



#57th training, however, was held online for practitioners.

Training #23, which earlier got postponed was held in Mumbai for practitioners. The 59th programme was also held for practitioners via online mode. Training #60th was held in on emerging construction technologies for thermal comfort for Practitioners. The #61st, #63rd and #64th trainings were on Climate Smart Building, held at Bhopal, Agartala and Gandhinagar, respectively, while the #62nd was an awareness drive at architectural college in Jharkhand.

Webinar on e-Learning and Webcasting of Light House Project for Technograhis held at Lucknow & Chennai

11 webcasting sessions held so far

The 10th and 11th editions of on 'e-Learning sessions and webcasting of LHPs for Technograhis' were held in Lucknow and Chennai on 30th June 2022 and 14th July 2022, respectively. Both the webinars were held at the LHP sites – Lucknow is currently under construction while Chennai has already been inaugurated and now being occupied by beneficiaries.

Under the series hosted by the Ministry for Technograhis and other



stakeholders, technical sessions are organised by BMTPC on LHP technologies, construction processes and how they can be replicated in Indian context. The participants are also given detailed presentations on LHP technology specification through live photos and videos. During each session, the focus is on one LHP site. The webinars have turned into a one-stop learning and knowledge sharing platform for Technograhis and other stakeholders.

The webinar in Chennai was held for the first time after its inauguration. The webinar witnessed a significant moment when beneficiaries of LHP Chennai came live to share their life transforming experiences with participants.

The 11 webcasting sessions at LHPs sites have been attended by more than 6,500 stakeholders virtually/physically.

LIGHT HOUSE PROJECTS



“ These six light house projects would give a new direction to the housing construction in the country. This will reduce the construction time and prepare the more resilient, affordable and comfortable homes for the poor. In a way, these projects will be incubation centres and our planners, architects, engineers and students will be able to learn and experiment with new technology. ”

- Hon'ble Prime Minister during foundation laying ceremony of LHPs
on 1st January 2021

LHPs are being promoted as Live Laboratories for learning, facilitating transfer of technology to the field and its further replication. The objective is to encourage large scale citizen participation and create technical awareness for technical learning, learning by finding ideas for solutions, experimentation and encouraging innovation.



PROGRESS OF LIGHT HOUSE PROJECTS AS ON JULY 25, 2022

RAJKOT, Gujarat

Technology Name: **Monolithic Concrete Construction using Tunnel Formwork**



No. of Dwelling Units : **1144 Nos. (S+13)**
No. of Block / Tower : **11 Blocks**
Units in each Block / Tower : **104 Nos.**

Activities	Progress
Foundation work	Completed in all 11 blocks
Superstructure work	Completed
Sample Unit	Completed
Masonry work	Completed
Internal Building work	Internal plaster is completed in 10 blocks. Kitchen slab, tile work and plumbing are in progress. Installation of lifts is also in progress.
Internal (Electrical work)	In progress
Social Infrastructure	After completion of Structure work, the Internal finishing is in progress in Anganwadi cum Shopping Complex and Community centre.
External Physical Infrastructure	Infrastructure works including Sewer line, storm water drains, water supply works, boundary wall etc. are in progress.

PROGRESS OF LIGHT HOUSE PROJECTS AS ON JULY 25, 2022

INDORE, Madhya Pradesh

Technology Name: **Prefabricated Sandwich Panel System with Pre-engineered Steel Structural System**



No. of Dwelling Units : **1024 Nos. (S+8)**
 No. of Block / Tower : **8 Blocks**
 Units in each Block / Tower : **128 Nos.**

Activities	Progress
Superstructure	
PEB Work	60 Floors completed in 8 blocks
Slab Work	53 Floors completed in 8 blocks
EPS Panel work in Wall	48 Floors completed in 8 blocks
Sample Unit	Completed
Infrastructure Work	Boundary wall, Community Centre, Road work, underground tank, STP & Sewer line works are in progress.



LUCKNOW, Uttar Pradesh

Technology Name: **Stay In Place PVC Formwork with Pre-Engineered Steel Structural System**



No. of Dwelling Units : **1040 Nos. (S+13)**
 No. of Block / Tower : **4 Blocks**
 Units in each Block / Tower : **A(494), B(130), C(208) & D(208)**

Activities	Progress
Superstructure work of Building Blocks	
Pre-Engineered Steel Building (PEB) Work	<ul style="list-style-type: none"> • PEB erection work is in progress upto 12th Floor in Block A1 (Part of Block A) • PEB erection work is in progress upto 9th Floor in other 2 Blocks (Block C & D). Started in A2 Block
Shear Wall Work (Staircase & Lift well)	<ul style="list-style-type: none"> • Stilt to 8th Floor shear wall work is in progress in all 4 Blocks
Slab Work & SIP Wall Form work	<ul style="list-style-type: none"> • Casting of Slab upto 6th floor is in progress in Block A1, & upto 3rd floor in Block C & D • SIP Wall form installation & casting is in progress upto 7th Floor level in Block A1, at 3rd Floor level in Block D & 2nd floor level in Block C along with Electrical & Plumbing work.
Sample Unit	Completed
Social Infrastructure	Community Centre & Commercial Block work completed upto Plinth level
Infrastructure Work	<ul style="list-style-type: none"> • Underground Water Tank is completed • About 82% of the Boundary Wall work is completed • Wall casting work is in progress for STP

PROGRESS OF LIGHT HOUSE PROJECTS AS ON JULY 25, 2022

RANCHI, Jharkhand

Technology Name: **Precast Concrete Construction System – 3D Volumetric**



No. of Dwelling Units : **1008 Nos. (G+8)**
 No. of Block / Tower : **7 Blocks**
 Units in each Block / Tower : **144 Nos.**

Activities	Progress
Casting Yard (Production of Components)	In the casting yard equipped with steam curing chamber, 820 numbers of different components/modules have been produced out of total requirement of 11151 numbers
Foundation work	<ul style="list-style-type: none"> The Raft slab of all 7 building blocks has been completed. The shear wall concrete casting have been completed in 6 blocks & near completion in one remaining Block (No.7) The Grade Slab of all building has been completed except for 1 Block (Block 7). The erection of building components is in progress at 2nd & 1st floor level in Block 1 & Block 2 respectively.
Infrastructure work	The pre-cast boundary wall installation has been completed in south and west side with a length of 323 mt out of total length of 578 mt.

AGARTALA, Tripura

Technology Name: **Light Gauge Steel Framed (LGSF) System with Pre-engineered Steel Structural System**



No. of Dwelling Units : **1000 Nos. (G+6)**
 No. of Block / Tower : **7 Blocks**
 Units in each Block / Tower : **A(111), B(152), C(125), D(167), E(167), F(167) & G(111)**

Activities	Progress
Foundation (Dwelling Units)	
Pile Work	Completed in 6 Blocks (A, B, C, E, F & G) & D -Block is in Progress
Excavation	A, B, C, E, F & G Block completed
Pile head breaking	A, C, E, F & G Block completed & B-Block is in Progress
PCC for foundation	A, E, F & G Block completed.
Raft Foundation	A, F & G Block completed & E-Block is in Progress
Plinth Beam & Pedestal Column Casting	A, F & G Block is in Progress
Superstructure	A & F Block is in progress

Social Media Corner



#LightHouseProjects paving way for future construction in country.

Work at #LHP Rajkot is in the ending phase & very soon, the housing project will be inaugurated for beneficiaries to move into their dream homes.

#AffordableHousing



Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban, Government of India
20 July at 16:35

Capturing the smiles!


The 1008 houses, being constructed under #LightHouseProject Ranchi as a part of #PMAYUrban, were allotted to beneficiaries through a lottery system on 19th July 2022 organised by Ranchi Municipal Corporation.

The selected beneficiaries were given allotment letters of their dream houses. These smiling faces explain the happiness & joy of families who will soon be able to live in their own pucca houses... See more




GHTC INDIA
@GhtcIndia

After successfully hosting 10 webinars of e-Learning session & webcasting of #LHPs for #Technograhis, we move on to the 11th series of this programme. On 14th July at 3 pm, join us for the session to know in detail about #LightHouseProjects & take a virtual tour to #LHPChennai.



Technology & innovation fulfilling #affordablehousing dreams of people!

At #LightHouseProject Indore, construction of 1,024 houses is underway. Houses here will not have brick & mortar walls, but prefabricated sandwich panel system.



Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban, Government of India
13 July at 19:47

50 & counting!

The 50th training under #RACHNA programme was recently organised in Bengaluru for professionals & Govt officials on the theme of innovative construction technology & #thermalcomfort in #affordablehousing.

Meanwhile, in Rajkot, 2-day training on similar theme was held for Rajkot Municipal Corporation officials, engineers, masons & construction field workers at Affordable Housing in Partnership site in Vaidi, where they were briefed about benefits of new age construction technologies used at #LightHouseProjects.

#HousingForAll #PMAYUrban #GHTCIndia #LHPs #ConstructionTechnology #TransformingUrbanLandscape #TransformingLives #ConstructionTechnology



Housing For All
@PMAYUrban

Under #RACHNA series, more & more stakeholders across the country are being trained about #ThermalComfort for #AffordableHousing & new age innovative #constructiontechnologies used at #LightHouseProjects with live design challenge.



कल दिनांक 19.07.2022 को रांची नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन "#लाइट हाउस प्रोजेक्ट" के 1,008 आवासों हेतु सुयोग्य लाभार्थियों को ई-लॉटरी से आवास आवंटन कार्यक्रम को झलकियाँ।

#PMAYUrban #GHTCIndia #TransformingLives #LightHouseProjects #LHP #LHPRanchi #UrbanHomeless

Translate Tweet



Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban, Government of India
16 July at 13:34

Get acquainted with new construction technologies & help in bringing technology transition in construction sector. Registrations for 11th batch of #NAVARITI - online certificate course on Innovative Construction Technologies - is open! Classes begin from 29th July. Enrol now.

The course is offered jointly by Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with School of Planning & Architecture, New Delhi and BMTPC.

#HousingForAll #PMAYUrban #GHTCIndia #TransformingUrbanLandscape #TransformingLives #ConstructionTechnology



Housing For All @PMAYUrban - 25 Jul
#LightHouseProjects are a step towards #AatmaNirbharBharat with housing technology!


For #LHPRanchi, Germany's already established technology has been adopted for the modern method of building construction. It is perhaps the best available technology in mass #AffordableHousing.



Social Media Corner



On 9th July 2022, Shri RK Gautam, Director, Housing For All, MoHUA reviewed progress of [#LightHouseProject](#) Indore, Madhya Pradesh & inspected the sample flat constructed at site. He was briefed about the work status by construction agency & state govt officials present there.



Media Coverage

Workshop on promotion of new technology of building construction held

Sunday, 24 July 2022 | Staff Reporter | Bhopal

A workshop was organised in Bhopal by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs and Directorate of Development and Housing in collaboration with GIZ, a German-Indo joint venture.

It was inaugurated by Satyendra Singh, Mission Director, Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) by enlightening lamp. Shri Singh encouraged all the participants present to adopt new techniques of construction and implement them at the ground level. Urban Administration and Development Superintending Engineer GS Saluja presented on new technologies and demonstration housing project (DHP) being implemented in Bhopal.

In the workshop, information regarding the new technology of pre fabricated sandwich panels for the construction of light house project (LHP) of Indore was given. It is noteworthy that light house project is implemented in 6 cities of the country including Indore, with different technologies. The entire technology of light house project is being implemented at a speedy pace and on the basis of the concept of the buildings.

The central Government has appointed the GIZ institution to promote the new technologies being implemented in the state. Subject experts Shri Gagandeep Singh, Yatin Chaudhary and Jitendra Singh are working to implement new technologies in the state.

30.0° 23.0°
बुध अंशः ०६:३८
उदयः ०५:५३
आर्द्रा ६८% ३७%

ज का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची का मौसम

रांची जागरण लाइट हाउस में लाटरी से 1008 लाभुकों को मिला पलैट, जल्द कराया जाएगा गृह प्रवेश

निगम क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोगों को पलैट दिया गया है जिनका रांची में घर नहीं है

50 परिवारों में अधिक से कुल है रांची निगम का काम कर रहे हैं जल्द करवाया जाएगा गृह प्रवेश

1,040 कुल लाभुकों को मिले हैं पलैट

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने दिखा था आवेदन

लाइट हाउस में पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

पलैट लेने के लिए 1531 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 1008 लोगों को पलैट मिले हैं।

हिन्दुस्तान

सपनों का घर: पीएम आवास योजना शहरी के तहत एचईसी में निर्मित लाइट हाउस का लाटरी से आवंटन रांची में 1008 लोगों को मिला आशियाना

खुशी झलकी

रांची, संवाददाता। राजधानी के धुंधले भित्त आन में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1008 फ्लैटों का मंगलवार को ई-लाटरी के जरिए आवंटन किया गया। रांची विरविद्यालय स्थित स्थान पर जयंती दीर्घा में मंडप में इस लाटरी का आवंटन किया गया था। जहां सुबह ही बजे से ही निबंधन के लिए लोग कतारबद्ध होना शुरू हो गए।

दोपहर 12:30 बजे तक निबंधन के बाद लाटरी की प्रक्रिया शुरू की गई। इन आवंटन के लिए रांची के कुल 1521 लोगों ने आवेदन दिया था। जिनमें से 1302 लोग आवेदन पत्र पुराने हैं, इनमें से 1119 उपस्थित हुए, जिनके बीच आवंटन का आवंटन हुआ। बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत नौ बर्थों में जी प्लस अट आवंटन का निर्माण किया जा रहा है।

पीएम आवास योजना शहरी के तहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जी प्लस अट के अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इनमें भी बर्थों को बने हुए फ्लैट 315 वर्ग फीट तक के हैं।



रांची विरविद्यालय के दीर्घा में मंडप पर मंगलवार को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आवंटन के आवंटन को लेकर धुंधले लोगों के बीच आवंटन का प्रमाण पत्र सौंपते विधायक सीपी सिंह, मेयर अशा लकड़ा व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय।

होना। इधर, मौके पर उपस्थित महापौर अशा लकड़ा ने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जो हर वर्ग की तकलीफों को समझते हैं। उनके जीवन के बेहतर एवं सुखियों के बारे में सोचते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1008 परिवारों के घर का सपना पूरा होगा।

मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, महापौर अशा लकड़ा, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त शशि रंजन, अप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त राजनीश कुमार, सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी, नगर प्रबंधक समेत कई बॉर्डर पार्षद भी उपस्थित थे।

मौलतलव है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम एसजीसी मेमोरिटे एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ, अप्रैल माह से बालू की कमी के कारण फिलहाल इसका निर्माण कार्य धीमा पड़ गया है। इसे लेकर लगभग निगम के अधिकारियों द्वारा साइट विजिट कर एजेंसी को कार्य में गति देने का निर्देश भी दिया गया है।

पहले लाइट प्रोजेक्ट के तहत बन रहे आवंटन को लेने के लिए लोगों ने उत्सुकता की कमी दिख रही थी। अब आवंटन के की संख्या बढ़ गई है।

सम करें।

नगर आ

आवास

ने जो भी

निर्माण

ने 1302

वर्ग फीट

का काम

किया जा

रहा है।

इनमें से

1119

उपस्थित

हुए, जि

नके बीच

आवंटन

का आवंट

न हुआ।

बता दें कि

लाइट हाउ

स प्रोजेक्

ट के तहत

नौ बर्थों

में जी प्ल

स अट का

निर्माण

किया जा

रहा है।

पीएम आ

वास यो

ज्या शहरी

के तहत

प्रोजेक्

ट में जी प्ल

स अट के

अपार्टमें

ट बनाए जा

रहे हैं। इन

में भी बर्थों

को बने हुए

फ्लैट 315

वर्ग फीट

तक के हैं।

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

सम करें।

नगर आ

आवास

ने जो भी

निर्माण

ने 1302

वर्ग फीट

का काम

किया जा

रहा है।

इनमें से

1119

उपस्थित

हुए, जि

नके बीच

आवंटन

का आवंट

न हुआ।

बता दें कि

लाइट हाउ

स प्रोजेक्

ट के तहत

नौ बर्थों

में जी प्ल

स अट का

निर्माण

किया जा

रहा है।

पीएम आ

वास यो

ज्या शहरी

के तहत

प्रोजेक्

ट में जी प्ल

स अट के

अपार्टमें

ट बनाए जा

रहे हैं। इन

में भी बर्थों

को बने हुए

फ्लैट 315

वर्ग फीट

तक के हैं।

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची का

मौसम

रांची 20-07-2022

राका ताड़ूवर डपर चढ़ात हुए फतर डपर राका ता उन पर भा डपर चढ़ात हो गयो। उनके गनमेन और ड्रावर का प्रयास हुआ था।

5 माह में तैयार होगा लाइट हाउस, 1 जनवरी को हो सकता है उद्घाटन राज्य में पहली बार 40 मिनट में बिना विवाद ई-लाटरी से 1008 फ्लैट अलॉट

सिटी रिपोर्टर | रांची

पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट लाइट हाउस का निर्माण धुंधले के आनी गांव में हो रहा है। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। इसी साल रांची नगर निगम ने आवेदकों को ई-लाटरी से लाभुक फ्लैट आवंटन की लिस्ट देखते हुए।

लाइट हाउस की खासियत

13 एकड़ जमीन 24 घंटे पानी 09 मंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट और पार्किंग

15 वॉर्पफ्ट का वन 1008 परिवार को सुविधा एक स्थान पर रहेगे

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घाटन होने की संभावना है, क्योंकि पीएम ने 1 जनवरी 2021 को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। खेल मैदान, कम्प्यूटरी हॉल के अलावा स्ट्रीट लाइट, ड्रेनज सिस्टम अन्य सुविधाएं भी जाएगी।

लाइट हाउस का उद्घा